

सोलर डहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों?

किसानों की आय बढ़ाने और फसल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से **IIIT कानपुर** ने एक नई **सौर नरिजलीकरण तकनीक (Solar Dehydration Technology)** विकसित की है।

मुख्य बंदी

- **उद्देश्य:**
 - यह तकनीक **फलों और सब्जियों** को **सौर ऊर्जा** के माध्यम से सुखाने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक कुशल और टिकाऊ तरीका है।
 - इसका **उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना** है।
 - किसान इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पर उन्हें बेच सकते हैं।
- **लाभ:**
 - **सोलर डहाइड्रेशन एक पर्यावरण अनुकूल तरीका** है, जो ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
 - सौर ऊर्जा का उपयोग करने से **परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता कम होती है**, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:**
 - इस पहल के तहत हाल ही में 30 किसानों को सोलर डहाइड्रेशन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों को टमाटर के प्री-ट्रीटमेंट और सोलर ड्राईंग की लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी गई, जिससे वे इस तकनीक को अपनी खेती में लागू कर सकेंगे।
- **अन्य संस्थाओं का सहयोग:**
 - इस प्रोजेक्ट में **NABARD** का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।
 - इसके साथ ही, **CSJM विश्वविद्यालय** के फूड प्रोसेसिंग विभाग के साथ मिलकर इस तकनीक के लिये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और गुणवत्ता प्रोटोकॉल तैयार किये गए हैं।

नाबार्ड (NABARD)

- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है।
- इसकी स्थापना **शिविरमन समिति** की सिफारिशों के आधार पर **संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982** को की गई थी।
- इसका कार्य **कृषि, लघु उद्योग, कूटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प** और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्द्धन और विकास के लिये ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना है।
- इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध **आर्थिक क्रियाओं** को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत विकास करना है।